



ROYAL OAK INTERNATIONAL SCHOOL
Sr. Sec. C.B.S.E. Affiliated (2024-25)

GRADE – VIII MONTHLY PLANNER - 2025

Dear Parents
Greetings!

Please find the academic plan and activities for the month of January and February.



JANUARY & FEBRUARY

ENGLISH	MATHS	HINDI
<p>New Images L-16 A Comedy of Manners</p> <p>Writing : Dialogue writing , Factual description</p> <p>Grammar -: Transformation of sentences, Punctuation PR- Revision</p> <p>Vocabulary -Words of the week (WOW)</p> <p>Revision of whole syllabus</p>	<p>Ch. 12 : Factorization Ch. 13: Introduction to Graphs</p> <p>Revision and Doubts</p>	<p>वसंत - पाठ - 13 बाज और साँप</p> <p>व्याकरण - पाठ 22 वाच्य (पुनरावृत्ति) पाठ 23 विराम चिह्न पाठ 25 अलंकार पर्यायवाची शब्द 16 से 30 मुहावरे 21 से 40 (पुनरावृत्ति) औपचारिक पत्र, अनुच्छेद, दैनंदिनी लेखन, सूचना लेखन</p> <p>भारत की खोज पाठ 8 तनाव पाठ 9 दो पृष्ठभूमियाँ - भारतीय और अंग्रेजी शासन</p> <p>पढ़ाए गए पाठों की पुनरावृत्ति। उपसर्ग/प्रत्यय, अनुस्वार/ः</p>
SCIENCE	S.SC.	FRENCH
<p>CH-12 Some natural Phenomena</p> <p>Lab Activity: TO Show that like charges repel each other</p>	<p>Revision and Completion of Lab Manuals</p>	<p>Leçon10 Passé récent Futur proche Les moyens de transport en France Simple futur Les Invitations</p>

SANSKRIT	G.K.
<p>संकल्पम्</p> <p>दशमः पाठः - दुर्बोधाः शिशवः खलु एकादश पाठः - लोकोक्तयः</p> <p>व्याकरण</p> <p>शब्द रूप - मातृ, पितृ सर्वनाम रूप - सर्व (तीनों लिंगों में) , युष्मद् धातु रूप - कथ्, अस्, श्रु, नृत् (लोट्लकार व विधिलिङलकार) अव्यय (विविध) ,प्रत्ययः (ल्यप्) , संवाद लेखनम् , पत्रलेखनम् , अपठित अवबोधनम्</p> <p>वार्षिक परीक्षा के लिए जनवरी में कराए गए कार्य की दोहराई तथा कक्षा परीक्षा।</p>	<p>36. Sunlight Therapy p.no.58 37. Think Sharp p.no. 59 38. Sudoku p.no.60</p> <ul style="list-style-type: none"> • Test Paper 2

- **Computer** : Ch-9 HTML 5-Table and Links
Ch-10 More in HTML and Revision
- **Practical** : Design your class timetable in HTML document, Registration form for a club membership.

ART & CRAFT	DANCE	MUSIC
<p>Art - Page no: 66,68(Book) & Republic Day drawing(in file) Craft -New Paper Basket (Gond Painting)</p>	<p>Republic day Preparation and Bollywood dance style</p>	<p>Instrumental (Congo, gaiter ,Drum, Casio) ,Prayer, School Songs**</p>

Taekwondo	Yoga	Athletics	Kho- kho	Boxing	Football	Cricket	Basketball	Badminton	Chess	Skating
<p>1. flexibility exercises 2.Back kick</p>	<p>1.Salabh Asana 2.Dhanur Asana</p>	<p>1.Running Seating start 2.Chain start technic</p>	<p>1.Pole turn. 2.Chain kho.</p>	<p>1.Punching with steps.</p>	<p>1.Control and pass. 2.Dribbling. 3.Shooting.</p>	<p>1. Bowling 2. Bating</p>	<p>1. Control the ball with dribbling.</p>	<p>1. Grip 2. Stance</p>	<p>1.Strategy 2.Opening & Endgames.</p>	<p>1.Put on your skating equipment. 2. Assume the right posture. 3. Walk like a duck.</p>

Special Days/ Events	Holidays
<ul style="list-style-type: none"> • Deworming Day • National Science Day 	<p>1st to 15th Jan.- Winter Break 14th Jan. - Makar Sankranti 26th Jan. – Republic Day</p>

Looking forward to a fruitful month of learning!

With warm regards,

Team ROIS